



कर्मचारी राज्य बीमा निगम

पंचदीप भवन : सी.आई.जी. मार्ग : नई दिल्ली-110 002

वेबसाइट : www.esic.nic.in, (आई एस ओ : 9001-2008 प्रमाणित)

निविदा सूचना

ड्रग्स एवं ड्रेसिंग की आपूर्ति हेतु दर अनुबंध

कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा ड्रग्स एवं ड्रेसिंग की खरीद हेतु दर अनुबंध की अंतिम तिथि से दो वर्षों की अवधि हेतु सुव्यवधित रूप से स्थापित एवं प्रतिष्ठित फार्मास्युटिकल्स फर्मों से मोहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। दवाईयों की आपूर्ति से तात्पर्य देश भर के ईएसआई संस्थानों से है। निविदा जमा कराने से पूर्व निविदादाता यह सुनिश्चित कर लें कि उन्होंने निविदा दस्तावेज में यथा निर्दिष्ट सभी शर्तें एवं नियम पूर्ण किये हों।

शर्त एवं नियम सहित निविदा दस्तावेज किसी भी कार्यदिवस पर पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 1.00 बजे तक तथा अपराह्न 2.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक दिनांक 06.09.2011 तक महानिदेशक, ईएसआईसी, नई दिल्ली के पक्ष में 2,500/- रुपये (दो हजार पांच सौ रुपये केवल) के अप्रतिदेय डिमांड ड्राफ्ट प्रस्तुत करने पर दर अनुबंध कक्ष, कमरा संख्या 312, पंचदीप भवन, सी.आई.जी. मार्ग, नई दिल्ली-110 002 से प्राप्त किये जा सकते हैं।

निविदा दस्तावेज ईएसआईसी की यथा उपरोक्त निर्दिष्ट वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है और यथा उपरोक्त निर्दिष्ट निविदा शुल्क 2,500/- रुपये (दो हजार पांच सौ रुपये केवल) के डिमांड ड्राफ्ट के साथ जमा किया जा सकता है। प्राधिकृत प्रतिनिधियों के माध्यम से निविदा दस्तावेज प्राप्त करने की इच्छुक फर्मों को इस संबंध में अनुरोध के साथ प्राधिकरण पत्र भी भेजना होगा। फर्मों जो डाक द्वारा निविदा दस्तावेज प्राप्त करने की इच्छुक हैं उन्हें उप चिकित्सा आयुक्त(दर अनुबंध) को पंजीकृत डाक के माध्यम से 2,500/- रुपये के डिमांड ड्राफ्ट के साथ अनुरोध भेजना होगा जिससे कि उनके पास दस्तावेज दिनांक 07.09.2011 से पूर्व या तक, पूर्वाह्न 11.00 बजे तक पहुँच जाये। निगम निविदा प्रपत्र के पहुँचने में किसी भी प्रकार की देरी या हानि हेतु जिम्मेदार नहीं होगा। निविदा दस्तावेज अहस्तांतरणीय हैं। फर्मों, जो ईएसआईसी दर अनुबंध में भागीदारी हेतु ईएसआईसी द्वारा वर्जित कर दी गई हैं, वे आवेदन नहीं कर सकती। महानिदेशक के पास तत्संबंध में बिना कोई कारण बताए पूर्ण निविदा अथवा किसी भाग को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है।

विधिवत सम्पूरित निविदा प्रपत्र डिमांड ड्राफ्ट महानिदेशक, ई.एस.आई.सी. नई दिल्ली के पक्ष में 2,00,000/- रुपये (दो लाख रुपये केवल) की धरोहर राशि के साथ दिनांक 07.09.2011 से पूर्व या तक, पूर्वाह्न 11.00 बजे से पूर्व इस कार्यालय में पहुँच जाने चाहिए।

निविदाएं (कवर "ए"- तकनीकी बोली) फार्मास्युटिकल्स फर्मों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में जो वहाँ उपस्थित रहना चाहें, समिति कक्ष, पंचदीप भवन, सी.आई.जी. मार्ग, नई दिल्ली-110 002 में दिनांक 07.09.2011 को पूर्वाह्न 11.30 बजे खोली जाएंगी। यदि निविदाएं खुलने की तिथि में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाता है तो निविदाएं उसी स्थान एवं समय पर अगले कार्यदिवस पर खोली जाएंगी।

हस्ता/-

उप चिकित्सा आयुक्त
कृते महानिदेशक